

## एक्सप्लोरेन्जा 2019

जब आप किसी के दर्द के साथ जीने लगते हैं तो आप की संवेदनशीलता उस दर्द को अपने अंदर समाहित कर लेती है और तब आप उसकी पीड़ा को दूर करने में सक्रिय हो जाते हैं... उक्त उद्गार थे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और सांसद सुश्री मीनाक्षी लेखी जी के जो पीजीडीएवी महाविद्यालय के एक्सप्लोरेन्जा 2019, में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध टीवी एंकर अमिश देवगन थे। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और शुभम करोति वंदना के साथ हुआ। इसी कड़ी में स्टूडेंट यूनियन के एडवाइजर और कल्चरल सोसायटी के कन्वीनर डॉ अंकित अग्रवाल ने अतिथियों का परिचय दिया। तत्पश्चात प्राचार्य डॉ मुकेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीजीडीएवी महाविद्यालय में अटल बिहारी बाजपेयी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अरुण जेटली जैसे विभूतियों के आने की जो गौरवान्वित परम्परा प्रारम्भ हुई है, सुश्री मीनाक्षी लेखी उसी परम्परा की एक कड़ी हैं। आज अमिश देवगन का मीडिया के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है, किस तरह से नकारात्मक माहौल से भी सकारात्मकता निकलती है, इस बात की अमिश देवगन जी से सीख लेनी चाहिए।



सुश्री मीनाक्षी लेखी ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए उस दौर के राजनैतिक माहौल की चर्चा की और बताया कि निर्भया कांड के बाद समाज और मीडिया के क्षेत्र में जागरुकता के साथ ही साथ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आये हैं। छात्रों को विवादों से बचकर पॉजिटिव एटीच्यूड अपनाना चाहिए।

श्री अमिश देवगन जी ने कहा कि आज महत्वपूर्ण बदलाव का दौर चल रहा है। धारा 307 की समाप्ति इसमें मुख्य महत्वपूर्ण घटना है। पढ़ाई के साथ ऐसे बदलाव की तरफ भी छात्रों को ध्यान देना चाहिए। सच अकेले चलता है पर अंत में जीत मिलने पर सभी उसके साथ आ जाते हैं। इस उद्बोधन के बाद प्राचार्य डॉ मुकेश अग्रवाल ने महाविद्यालय के चुने हुए छात्र पदाधिकारियों को शपथ दिलायी।

कार्यक्रम के अंत में छात्रों द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया जिन्हें बाद में प्राचार्य डॉ मुकेश अग्रवाल ने पुरस्कृत भी किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ किरण यादव ने किया।